

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 2018/श्रावण 27, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 600

No. 171]

DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 2018/SHRAVANA 27, 1940

[N.C.T.D. No. 600

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

सं. फा. 22(3)/आरआर/परामर्शदाता/प्रशा0/डीडब्ल्यूसीडी/2016/21828-38.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में परामर्शदाता के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(i) इन नियमों को महिला एवं बाल विकास विभाग एवं कारागार विभाग, परामर्शदाता भर्ती नियमावली, 2018 कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ सलग्न अनुसूची के कॉलम संख्या (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलों हेतु विवरण, इन नियमों में सलग्न अनुसूची के कॉलम संख्या (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता .—** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है वह

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	परामर्शदाता
2.	पदों की संख्या	:	50 (पचास) (10—महिला एवं बाल विकास विभाग+40 जिला कारागार) (वर्ष—2018) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35,400—1,12,400 /—रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं नोट 1:— केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2:— आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : (क) i) मनोविज्ञान/व्यावहारिक मनोविज्ञान में स्नातक उपाधि। ii) परामर्श मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, iii) किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य/ड्रग व्यसन मुक्ति केंद्र या मनोवैज्ञानिक वार्ड के क्षेत्र में काम कर रहे नैदानिक मनोचिकित्सक/संगठन जो कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ काम करने का एक वर्ष का अनुभव। या

			<p>(ख) मनोविज्ञान/परामर्श मनोविज्ञान/नैदानिक मनोविज्ञान/व्यावहारिक मनोविज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि</p> <p>(ग) माध्यमिक स्तर एवं उससे उपर शैक्षिक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन किया हो।</p> <p>वांछित :- नैदानिक मनोविज्ञान में एम. फिल.।</p> <p>टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी/एसएससी के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>नोट: पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से भरा जा सकता है।</p> <p>क (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले अथवा</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले</p> <p>(प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	<p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)</p> <p>१. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – अध्यक्ष</p> <p>२. विशेष/अतिरिक्त निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग—सदस्य</p> <p>३. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार—सदस्य</p> <p>४. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी—सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रश्मि कृष्णन, आईएएस, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th August, 2018

No. F. 22(3)/RR/Counselor/Admn./DWCD/2016/21828-38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Counselor in the Department of Women & Child Development and Prison Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called Department of Women & Child Development and Prison Department's, Counselors Recruitment Rules, 2018.

(ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in the pay matrix. —The number of the said posts, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax in any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Counselor	50 (Fifty) (Deptt. of WCD-10, Central Jail-40) (subject to variation dependent on work load) (year 2018)	GCS-Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in Pay Matrix	N.A.	Not exceeding 30 years. Note:1 Relaxable for Government Servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the

					<p>Central Govt..</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age & educational Qualifications prescribed for direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether By direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: A- (I) Bachelor's Degree in Psychology/Applied Psychology,</p> <p>(II) Post Graduate Diploma in Counseling Psychology, and</p> <p>(III) One year experience of working with clinical psychologist/organization working in the field of Mental Health/Drug De-addiction Center/ Psychiatric ward in any hospital /clinic;</p> <p>or</p> <p>B. Master's Degree in Psychology/ Counseling Psychology/Clinical Psychology/Applied Psychology from a recognized University/Institute</p> <p>C. Studied Hindi as a subject at any level from Secondary onward.</p> <p>Desirable:- M. Phil in Clinical Psychology.</p> <p>Note-1. Qualifications are relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes,</p>	N.A.	Two year	<p>By Direct recruitment.,</p> <p>Note- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department.</p> <p>(B) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Coloumn 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of</p>

if at any stage of selection the SSC/Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			receipt of applications).
In case of recruitment by promotion/ Deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made;	If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)		(13)
Not applicable	Group 'B' DPC (for considering Confirmation): 1. Director, Department of Women & Child Development, GNCT of Delhi - Chairman 2. Spl./Addl. Director, DWCD - Member 3. Superintendent, Central Jail Delhi - Member 4. District Women & Child Development Officer, DWCD, GNCT of Delhi - Member.		Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of Delhi
 National Capital Territory of Delhi,
 RASHMI KRISHNAN, IAS, Secy.